

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 मार्च 2016—फाल्गुन 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2016

क्र. 4481-71-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 1 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION BILL, 2016.

A Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2016.

Issue of Rs. 16,27,70,06,400 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees One thousand six hundred Twenty seven crores seventy lakhs six thousands four hundred towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue 46,61,800	0	46,61,800
12.	Energy	Revenue 0	2,60,19,75,000	2,60,19,75,000
17.	Co-operation	Revenue 2,04,70,34,000	0	2,04,70,34,000
25.	Mineral Resources	Revenue 0	35,00,52,000	35,00,52,000
28.	State Legislature	Revenue 1,40,00,000	0	1,40,00,000

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
29.	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	100	0	100
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	8,00,00,00,000	0	8,00,00,00,000
66.	Welfare of Backward Classes			
	Capital	0	2,83,500	2,83,500
75.	Financial assistance to Urban Bodies			
	Revenue	3,25,90,00,000	0	3,25,90,00,000
Total ..	{ Revenue .. Capital ..	13,32,46,95,900	2,95,20,27,000	16,27,67,22,900
		0	2,83,500	2,83,500
Grand Total ..		13,32,46,95,900	2,95,23,10,500	16,27,70,06,400

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh of the moneys required to meet the supplementary expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh and the grants made by the Legislative Assembly for expenditure of the Government of Madhya Pradesh for the Financial Year 2015-2016.

2. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 10th March, 2016

JAYANT MALAIYA
Member-in-charge.